



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, 13 जनवरी, 2001 (वोष 23, 1922)  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13, 2001 (PAUSA 23, 1922)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विधियों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 7	भाग II—खण्ड 3—आखंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (जिनमें शामिल क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राज-पत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 37
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	37	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक नियम और आदेश	1
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रसांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निरीक्षक और महाबोर्ड, परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और प्रसीनस्व कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	23
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	23	भाग III—खण्ड 2—सेटेट कार्यालय द्वारा जारी की गई गेटेन्टों और डिवाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	39
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों के अधिकार के अधीन प्रथमा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	17
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का द्वितीय भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	373
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—नैर-सरकारी विनियम और नियमों द्वारा जारी किये गये विज्ञापन और नोटिस	5
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में जारी की गई मूल्यों के प्राकट्यों को दर्शाने वाला सम्पुरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

## CONTENTS

PAGE

PAGE

**PART I—SECTION 1**—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . 7

**PART I—SECTION 2**—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . 37

**PART I—SECTION 3**—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . . 1

**PART I—SECTION 4**—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . . 23

**PART II—SECTION 1**—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . \*

**PART II—SECTION 1A**—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . \*

**PART II—SECTION 2**—Bills and Reports of the Select Committees on Bills . . . . . \*

**PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)**—General Statutory Rules including Orders, By-laws, etc. of a general character, issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . \*

**PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)**—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . \*

**PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)**—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Byo-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . \*

**PART II—SECTION 4**—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . . \*

**PART III—SECTION 1**—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . . 3\*

**PART III—SECTION 2**—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . . 17

**PART III—SECTION 3**—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . \*

**PART III—SECTION 4**—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . 373

**PART IV**—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . . 5

**PART V**—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . \*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

रत्न सम्बन्धी स्थायी समिति

नई दिल्ली—110001, दिनांक 26 दिसम्बर, 2000

सं० 6/1/एम० सी० आर०/2000.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड (4) के अनुसरण में राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2000 को स्वीकृत किये गये प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, श्री बरजिन्दर सिंह हंसदर्द, संसद सदस्य (राज्य सभा) 21-12-2000 से विभागों से सम्बद्ध रत्न सम्बन्धी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

एम० एन० दर्शन,  
अवर सचिव

नई दिल्ली—110001, दिनांक 27 दिसम्बर, 2000

सं० 4/1/3 गे० आ० डी०/2000 — श्री पालदेन शेरिंग गिम्पे, संसद सदस्य, राज्य सभा को 21 दिसम्बर, 2000 में विभागों से सम्बद्ध रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति (1999-2000) का सदस्य मनोनीत किया गया है।

राम अवतार राम, निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 27 दिसम्बर, 2000

सं० 11026/9/98-पी० एम० ए०.—पुलिस (आन्तरिक सुरक्षा सेवा) पदक के सम्बन्ध में 20 सितम्बर, 2000 को अधिसूचित राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं० 142-प्रेस/2000 की चौथी संविधि और 20 सितम्बर, की अधिसूचना के पैरा एक के अनुसरण में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि "पुलिस (आन्तरिक सुरक्षा सेवा) पदक" ऐसे पुलिस कमियों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, नागालैंड और त्रिपुरा में 1 जनवरी, 1989 से विद्रोही-विरोधी अथवा आन्तरिक आपराधों में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में यह पदक केवल उन्हीं पुनिवर्तित कर्मियों को ही प्रदान किया

जायेगा जिन्होंने उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रों में उक्त अवधि के दौरान सेवा की हो।

आ० पी० आर्य,  
संयुक्त सचिव,

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000

संकल्प

विषय:—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन —मंशोधन के सम्बन्ध में।

फा० सं० 146/2/98—आई० टी० सी० सी०.—कर दाताओं और आयकर विभाग के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहयोग को विकसित करने और बढ़ावा देने के उपायों पर सरकार को सलाह देने तथा सामान्य प्रकृति की प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मंशोधित प्रस्ताव सं० 146/2/98—आई० टी० सी० सी० दिनांक 4-12-2000 में निम्नलिखित और मंशोधन किया जाता है:—

गैर-सरकारी सदस्य

क. संसद के सदस्य

(ii) श्री एम० राजेश, संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर

(1) एम० राजेश, संसद सदस्य (लोक सभा) पढ़ा जाये

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये

एम० एम० कौशिक,  
निदेशक (आई० टी० सी० सी०)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  
नई दिल्ली दिनांक 6 दिसम्बर, 2000

संकल्प

सं० ड०-11015/9/95-हिन्दी—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में संबंधित इस विभाग के दिनांक 16 जून, 2000 के संकल्प सं० ई-11015/9/95-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पवन सिंह घाटोवार, संसद सदस्य, लोक सभा के स्थान पर, श्री राजो सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा उपर्युक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, सघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, देखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण को जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

रजनी राजदान,  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर, 2000

सं० 20-1-2000-म० क०:—राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करने और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उन्हें उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए मौजूदा कानूनों और सरकारी स्कीमों की समीक्षा

करने के लिये महिलाओं और बच्चों पर कार्य बल की स्थापना के सम्बन्ध में इस विभाग की 14-8-2000 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य बल का कार्य-काल 31 मार्च, 2001 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः कार्य बल अपने विचारणीय विषयों के अन्तर्गत सभी मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा। कार्य बल के अन्य विचारणीय विषय अपरिवर्तित रहेंगे।

सरोजिनी जी० ठाकुर,  
संयुक्त सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर, 2000

सं० 6/2/97-ट्रांस.—विद्युत मंत्रालय के 4 अगस्त, 1997 को जारी समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करने हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम (आर० आर० बी० पी० एन० एल०) को अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की जगह एन० आर० डी० बी० का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

इसके अन्य सदस्य पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की सूचना पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की राज्य सरकारों, चण्डीगढ़, संघीय क्षेत्र प्रशासन, भाखड़ा प्रबन्धन बोर्ड, पावर ग्रिड कारपोरेशन लि०, उत्तरी क्षेत्र, एन० टी० पी० सी० उत्तरी क्षेत्र, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की आम जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जे० वासुदेवन,  
अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT  
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

New Delhi-110001, the 26th December 2000

No. 6/1/SCR/2000.—Shri Barjinder Singh Hamdard, MP (Rajya Sabha) ceases to be a Member of Departmentally Related Standing Committee on Railways (1999-2000) w.e.f. 11-12-2000 consequent upon the adoption of a motion by the Council of State on 21st December, 2000 in terms of clause (4) of article 101 of the Constitution of India.

S. N. DARGAN  
Under Secy.

New Delhi-110001, the 27th December 2000

No. 4/1/3/COD/2000.—Shri Palden Tsering Gyamiso, M.P., Rajya Sabha has been nominated to be the Member of the Departmentally Related Standing Committee on Defence (1999-2000) with effect from 21 December, 2000

RAM AUTAR RAM  
Director



